

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

02 अक्टूबर 2018

जामिया मिल्लिया ने आस पास की बस्तियों से मिल कर बड़े पैमाने पर मनाया स्वच्छता पखवाड़ा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया :जेएमआई: में एक पखवाड़े से बड़े पैमाने पर चल रहा स्वच्छता अभियान आज महात्मा गांधी जयंती पर संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने जेएमआई परिसर ही नहीं, बल्कि आस पास की रिहायशी बस्तियों और बाजारों में भी जाकर स्थानीय लोगों को साथ लेकर सफाई की।

सफेद टी शर्ट और नारंगी रंग की टोपी लगाए जेएमआई के सैंकड़ों छात्र सफाई की महत्ता का पैगाम लेकर सुखदेव विहार, सराय जुलेना और न्यू फ्रेंड्स कालोनी गए और वहां सफाई की। बच्चों के इस कार्य से अभिभूत, स्थानीय लोग भी पूरे उत्साह से उनके साथ सफाई अभियान में जुट गए।

छात्रों ने न्यू फ्रेंड्स कालोनी कम्युनिटी सेंटर में सफाई को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी किया जिसे सबने काफी सराहा। इस नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हुए। दर्शकों की इतनी तादाद थी कि आस पास की छतों और पेड़ों पर चढ़ कर कई लोगों ने इसका लुत्फ उठाया।

इस स्वच्छता अभियान में जेएमआई एनएसएस के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वच्छता पखवाड़े का समापन सफाई-सुथराई विषय पर पेंटिंग प्रतिस्पर्धा से हुआ।

दिल्ली की एनएसएस ऑफिसर रूमी जौहरी इसमें हिस्सा लेने खास तौर पर आईं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में इतनी बड़ी तादाद में जेएमआई के छात्रों की हिस्सेदारी से वह अभिभूत हैं। इसके लिए उन्होंने जेएमआई छात्रों, अध्यापकों और प्रशासन का धन्यवाद किया और उन्हें मुबारकबाद दी।

जेएमआई एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रो नियामतउल्ला खान ने कहा कि विश्वविद्यालय ने हमेशा से ही सफाई सुथराई पर खास ध्यान दिया है। छात्रों को सफाई के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करने और साथ ही आस पास की बस्तियों और बाजारों में भी इस पैगाम को ले जाने के लिए विश्वविद्यालय ने “स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा “ का आयोजन किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में जेएमआई के डिप्टी प्रोग्राम ऑफिसर वी एच सिद्दीक, प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस डा. आबिद हुसैन और डा. नवेद जमाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक

